



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1750]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2008/अग्रहायण 24, 1930

No. 1750]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2008/AGRAHAYANA 24, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 15 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2900(अ).—केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में इस सूचना की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अन्दर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :

मथुरा रोड स्थित आली-सैदाबाद गाँव में 98.11 हैक्टेयर (242.45 एकड़) भूमि में से नक्शे में दर्शायी गई सीमा के अनुसार 78.33 हैक्टेयर (193.56 एकड़) भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन प्रस्तावित है, जिसका विवरण, निम्नानुसार है :—

भूमि उपयोग का निम्नलिखित से	क्षेत्रफल	निम्नलिखित में परिवर्तन	क्षेत्रफल
मनोरंजनात्मक	10.66 हैक्टे. (26.36 एकड़)	व्यावसायिक	10.66 हैक्टे. (26.36 एकड़)
थोक विक्रय/भाण्डागार	36.58 हैक्टे. (90.41 एकड़)	व्यावसायिक	3.20 हैक्टे. (7.90 एकड़)
		आवासीय	17.75 हैक्टे. (43.84 एकड़)
		सार्व एवं अर्ध-सार्व	4.78 हैक्टे. (11.80 एकड़)
		मनोरंजनात्मक	3.91 हैक्टे. (9.68 एकड़)
		सड़क	6.95 हैक्टे. (17.19 एकड़)
परिवहन (ट्रक टर्मिनल)	27.76 हैक्टे. (68.54 एकड़)	आवासीय	22.95 हैक्टे. (56.73 एकड़)
		सड़क	4.78 हैक्टे. (11.81 एकड़)
आवासीय	0.46 हैक्टे. (1.14 एकड़)	व्यावसायिक	0.47 हैक्टे. (1.14 एकड़)
सड़क	2.87 हैक्टे. (7.11 एकड़)	आवासीय	2.88 हैक्टे. (7.11 एकड़)
कुल	78.33 हैक्टे. (193.56 एकड़)		78.33 हैक्टे. (193.56 एकड़)

'ओखला' गाँव स्थित 15.18 हैक्टेयर (37.53 एकड़) भूमि में से नक्शे में दर्शायी गई सीमा के अनुसार 5.26 हैक्टेयर (13.0 एकड़) भूमि का भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

भूमि उपयोग का निम्नलिखित से	क्षेत्रफल	निम्नलिखित में परिवर्तन	क्षेत्रफल
जिला पार्क (मनोरंजनात्मक उपयोग)	5.26 हैक्टे (13.0 एकड़)	व्यावसायिक सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सड़क/परिचालन	2.28 हैक्टे (5.63 एकड़) 0.75 हैक्टे (1.87 एकड़) 2.23 हैक्टे (5.50 एकड़)
		कुल	5.26 हैक्टे (13.0 एकड़)

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त निर्धारित अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में संयुक्त निर्देशक (मुख्य योजना) कार्यालय, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 3(32)96/एम.पी.]

विरव मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th December, 2008

S.O. 2900(E).—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi 2021 under Section 11A of Delhi Development Act, 1957 is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send the objection/suggestion in writing to the Principal Commission-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address.

MODIFICATIONS:

Out of 98.11 ha (242.45 acre) land in village AALI-SAIDABAD at Mathura Road, change of land use is proposed for land measuring 78.33 ha (193.56 acre) as per the boundary shown in the map, for which the details are given below :—

From	Area	To	Area
Recreational	10.66 ha. (26.36 acre)	Commercial	10.66 ha. (26.36 acre)
Whole sale/Warehousing	36.58 ha. (90.41 acre)	Commercial	3.20 ha. (7.90 acre)
		Residential	17.75 ha. (43.84 acre)
		P.S.P.	4.78 ha. (11.80 acre)
		Recreational	3.91 ha. (9.68 acre)
		Road	6.95 ha. (17.19 acre)
Transport (Truck Terminal)	27.76 ha. (68.54 acre)	Residential	22.95 ha. (56.73 acre)
Residential	0.46 ha. (1.14 acre)	Road	4.78 ha. (11.81 acre)
Road	2.87 ha. (7.11 acre)	Commercial	0.47 ha. (1.14 acre)
		Residential	2.88 ha. (7.11 acre)
Total	78.33 ha. (193.56 acre)		78.33 ha. (193.56 acre)

Out of 15.18 ha. (37.53 acre) land in village 'OKHLA' having boundary as shown in the Map the change of land use is proposed for 5.26 ha. (13.0 acre), for which details are given below :—

From	Area	To	Area
District Park (Recreational Use)	5.26 ha. (13.0 acre)	Commercial	2.28 ha. (5.63 acre)
		P.S.P.	0.75 ha. (1.87 acre)
		Road/circulation	2.23 ha. (5.50 acre)
		Total	5.26 ha. (13.0 acre)

The plan indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Joint Director (MP), 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, Delhi Development Authority, New Delhi on all working days during the period referred above.

[No. F. 3(32)96/MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.